



## FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट थाना एका दिनांक 27-08-2021 जनपद फिरोजाबाद ।

थाना एका पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/21 धारा 395,412,120 बी,342,506 भादवि में पशु व्यापारी से लूट करने वाले अभियुक्त संदीप उर्फ सिंगम उर्फ सिंघम की निशांदेही पर लूट की घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर गाडी ( रंग ओरेन्ज) व लूट के हिस्से में आए रूपये 01 लाख 04 हजार बरामद ।

- अभियुक्त संदीप उर्फ सिंगम उर्फ सिंघम को जनपद मैनपुरी से पुलिस रिमाण्ड पर लाया गया जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर गाडी व 01 लाख 04 हजार रूपये किए गए हैं बरामद ।
- लूट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को पूर्व में ही थाना एका पुलिस टीम द्वारा भेजा जा चुका है जेल जिनसे लूट के 06 लाख रूपयों की हुई थी बरामदगी ।

थाना एका क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 14-07-2021 को चन्द्रभान उर्फ चन्दू पुत्र दिवारीलाल खटीक निवासी मुस्तफाबाद थाना जसराना जो कि बकरी, बकरा की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं अपने साथियों संग सिकन्दरा राऊ पशु मण्डी में खरीद फरोख्त करने के लिए जा रहे थे कि बदमाशों द्वारा इनकी मैक्स गाडी रोककर इनसे रूपये लूट लिए गए और मौके से भाग गए जिसके सम्बन्ध में थाना एका पर मु0अ0सं0 176/21 धारा 395,412,120बी,342,506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था जिसमें पीडित द्वारा बताया गया था कि टाटा हैरियर गाडी में बैठे बदमाशों द्वारा मुझसे 10 लाख 45 हजार रूपये की लूट की गयी थी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के नेतृत्व में घटना के खुलासे हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था जिसमें 04 लूटेरों से लूट के 06 लाख रूपये बरामद कर जेल भेजा गया था उसी के क्रम में आज दिनांक 27-08-2021 को थाना एका पुलिस टीम द्वारा जनपद मैनपुरी जेल से पीसीआर पर लाए गए अभियुक्त संदीप उर्फ सिंगम उर्फ सिंघम पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम अन्जनी थाना बिछवाँ जनपद मैनपुरी की निशांदेही पर ग्राम गढी सोनई की ओर जाने वाले रास्ते से 01 कि0मी0 आगे कैलई पुल के पास के जंगलों से लूट की घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर गाडी यूपी 84 एडी 9424 रंग संतरी व गाडी में रखे 01 लाख 04 हजार रूपये बरामद किए गए हैं । पूछताछ करने पर अभियुक्त संदीप उर्फ सिंगम उर्फ सिंघम उपरोक्त द्वारा बताया गया कि लूट के 10 लाख 45 हजार रूपयों में से मेरे हिस्से में 01 लाख 50 हजार रूपये आए थे जिसमें मैंने 46 हजार रूपये खर्च कर दिए तथा बाकि 01 लाख 04 हजार रूपये जल्दबाजी में इसी गाडी में छोड़ दिए थे । पूर्व में लूट के मुकदमे से सम्बन्धित 04 लूटेरों को थाना एका पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था जिनसे 06 लाख रूपये प्रत्येक से 1.5 लाख रूपये की बरामदगी हुई थी । इस प्रकार पीसीआर पर लाए गए अभियुक्त संदीप उपरोक्त से लूट की घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर गाडी व 01 लाख 04 हजार रूपये बरामद किए गए हैं । थाना एका पुलिस टीम द्वारा लूट के 05 अभियुक्तों से एक टाटा हैरियर गाडी व कुल 07 लाख 04 हजार रूपये बरामद कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी से पीसीआर पर लाए गए अभियुक्त का नाम पता:---

1-संदीप उर्फ सिंगम उर्फ सिंघम पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम अन्जनी थाना बिछवाँ जनपद मैनपुरी ।

बरामदगी का विवरण:--

1-अभियुक्त की निशांदेही पर लूट की घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर गाडी यूपी 84 एडी 9424 (रंग ओरेन्ज) ।

2-लूट के 01 लाख 04 हजार रूपये ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1-श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थानाध्यक्ष एका जनपद फिरोजाबाद ।

2-उ0नि0 श्री सोमिल राठी थाना एका जनपद फिरोजाबाद ।

3-है0का0 200 अशोक कुमार 4-का0 840 प्रेमसिंह, 5-का0 965 महेश कुमार थाना एका जनपद फिरोजाबाद ।

6-का0 409 योगेश कुमार , 7-चालक का0 248 कन्हैया रावत थाना एका जनपद फिरोजाबाद ।